



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 5]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 1, 1979/वैष 11, 1900

No 5]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 1, 1979/PAUSA 11, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1979

अधिसूचनाएं

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 1st January, 1979

NOTIFICATIONS

CENTRAL EXCISES

सं० का० वि० 6(अ).—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 28/78—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 4 फरवरी, 1978 तथा सं० 20/69—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1969 को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की सब सं० 1 की उपसब (2) के अन्तर्गत आने वाली चीनी को, उस पर उद्धर्णीय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

2. यह अधिसूचना 30 सितम्बर, 1979 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी।

G.S.R. 6(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957) and in supersession of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 28/78-Central Excises, dated the 4th February, 1978 and No. 20/69-Central Excises, dated the 1st March, 1969, the Central Government hereby exempts sugar falling under sub-item (2) of Item No. 1 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise and additional duty of excise leviable thereon.

2. This notification shall remain in force upto and inclusive of the 30th day of September, 1979.

[सं० 2/79-सं०/का० सं० 14/67/78-CX]

[No. 2/79-CE/F. No. 14/67/78-CX. II]

सां० कां० लि० 7(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 92-ख के साथ पठित नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 26/78—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 4 फरवरी, 1978 को अधिकांश करते हुए, यथास्थिति, सल्फाइटेशन संयंत्र की सहायता से या उसके बिना काम करने वाली यूनिटों में खंडसारी चीनी के विनिर्माण के लिए स्थापित विभिन्न आकारों के अपकेन्द्रों (सेन्ट्रिफ्यूगल्स) को, उन पर उद्घर्णीय प्रति अपकेन्द्र उत्पाद-शुल्क की सम्पूर्ण साप्ताहिक दर से छूट देती है।

2. यह अधिसूचना 30 सितम्बर, 1979 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है प्रवृत्त रहेगी।
(सं० 3/78)

[सं० 3/79-सीई/का० सं० 14/67/78-CX]

G.S.R. 7(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with rule 92-B of the Central Excise Rules, 1944 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 26/78-Central Excises, dated 4th February, 1978, the Central Government hereby exempts the different sizes of centrifugals installed for the manufacture of khandsari sugar in the units working with or without the aid of sulphitation plants, as the case may be, from whole of the weekly rate of duty of excise per centrifugal leviable thereon.

2. This notification shall remain in force upto and inclusive of the 30th day of September, 1979.

[No. 3/79-CE/F. No. 14/67/78-CX. I]

सां० कां० लि० 8(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 92-ख के साथ पठित नियम 8 के उपनियम (1) और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 27/78—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 4 फरवरी 1978 को अधिकांश करते हुए, यथास्थिति, सल्फाइटेशन संयंत्र की सहायता से या उसके बिना काम करने वाली यूनिटों में खंडसारी चीनी के विनिर्माण के लिए स्थापित विभिन्न आकारों के अपकेन्द्रों (सेन्ट्रिफ्यूगल्स) को उन पर उद्घर्णीय प्रति अपकेन्द्र अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क की सम्पूर्ण साप्ताहिक दर से छूट देती है।

2. यह अधिसूचना 30 सितम्बर, 1979 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी।

[सं० 4/79-सीई/का० सं० 14/67/78-CX]

बी० प्रसाद, सचिव

G.S.R. 8(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 read with rule 92-B of the Central Excise Rules, 1944 and sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 27/78-Central Excises, dated 4th February, 1978, the Central Government hereby exempts the different sizes of centrifugals installed for the manufacture of khandsari sugar in the units working with or without the aid of sulphitation plants, as the case may be, from the whole of the weekly rate of additional duty of excise per centrifugal leviable thereon.

2. This notification shall remain in force upto and inclusive of the 30th day of September, 1979.

[No. 4/79-CE/F. No. 14/67/78-CX.

B. PROSAD, Under Sec